

मृत्यु स्पॉट
विविक सूचना

उत्त भाग यहे रुच्यु लिंगादर को नक्ष जोड़ा जाता है।

सूचक द्वारा भरने हेतु

- मृत्यु की तारीख:
(मृत्यु की वास्तविक तारीख
उदाहरणार्थः 01.01.2000)

- मृतक का नाम :
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है।)

- पिता / पति का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतः लिखा जाता है।)

- मृतक का लिंग:
(पुरुष या स्त्री: पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं।)

- मृतक की उम्र:
(यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पूरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से कम हो, तो पूरे महीने में लिखें और यदि एक महीने से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि एक दिन से कम हो तो पूरे घंटों में लिखें।)

- मृत्यु का स्थान:
(नीचे अंकित प्रविष्टि 1.2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिन्हित करें। और अस्पताल / संस्थान का नाम लिखें या घर का तत्ता टक्के, जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)

1. अस्पताल / संस्थान का नाम:

2. घर का पता:

3. अन्य स्थान:

- मृतक का स्थाई पता:

- सूचक का नाम

पता

- (1 से 19 तक के सभी मर्टों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ इस्ताब्ध करेंगे और तारीख देंगे।)

दिनांक : सूचक का इस्ताब्ध या बांधे अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु
रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख:
रजिस्ट्रीकरण इकाई :

शहर / ग्राम:
अन्युक्ति (यदि कोई हो)

जिला:
रजिस्ट्रार का नाम और इस्ताब्ध

मृत्यु स्पॉट
सारिक्षकीय सूचना

उत्त भाग यहे ऊपर लिंगादर को नक्ष जोड़ा जाता है।

सूचक द्वारा भरने हेतु

- मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्राम:
(मृतक जहाँ वास्तव में निवास करते थे। यह उस स्थान जहाँ मृत्यु की घटना हुई है से भिन्न हो सकता है। घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)

- शहर / ग्राम का नाम:
(अ) यह शहर है या ग्राम:

- जाता (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें।)

- शहर 2. ग्राम:

- (ग) जिला का नाम:

- (घ) राज्य का कनाम:

- प्रधान वर्म (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें।)

1. डिन्हू 2. मुर्सिलम 3. इसाई

4. अन्य कोई वर्म (वर्म का नाम अंकत करें।)

11. मृतक का व्यवसाय:

- (अगर व्यवसाय न हो, तो शून्य अंकित करें।)

12. मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सिद्धायता का प्रकार:

- (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें।)

1. संस्थागत

2. संस्था से अलग चिकित्सा सिद्धायता

3. कोई चिकित्सा सिद्धायता नहीं

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु -

रजिस्ट्रीकरण संख्या

की संख्या :

जन्म की तारीख:

लिंग:

उम्र वर्ष / महीनों / दिनों / घन्टों में

मृत्यु का स्थान 1. अस्पताल / संस्थान

2. घर

3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रीकरण

की तारीख:

जन्म की तारीख:

1. पुरुष

2. स्त्री

मृत्यु का स्थान 1. अस्पताल / संस्थान

2. घर

3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रार का नाम और इस्ताब्ध

सूचक द्वारा भरने हेतु

- क्या मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणीकरण हुआ था?
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें।)

1. हाँ 2. नहीं

14. रोग का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण:
(सभी मृत्युओं की टशा में चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित है अथवा नहीं।)

- 1 नहीं

15. यदि चुम्पान के आदि थे-
तो कितने वर्षों से ?

16. यदि किसी रूप में तन्त्राकु (खैनी, सूरती खाने के आदि थे-
तो कितने वर्षों से ?

17. यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने के आदि थे (पान
मसाला सहित) तो कितने वर्षों से ?

18. यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने के आदि थे (पान
मसाला सहित) तो कितने वर्षों से ?

19. यदि मध्य-पान करने के आदि थे-
तो कितने वर्षों से ?

(मर्टों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाएं तरफ इस्ताब्ध करें।